

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 14—फरवरी 20, 2015 (माघ 25, 1936)

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 14—FEBRUARY 20, 2015 (MAGHA 25, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 जनवरी 2015

सं. ओ.दो. 3963/12-कार्मिक (एम.ओ.ज.)—डॉ. प्रमिला वी. एस., वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (उप कमाण्डेंट) (ईरला सं. 9852), कम्पोजिट अस्पताल के.रि.पु.बल बंगलौर को दिये गये एक माह के नोटिस की समय सीमा दिनांक 09.01.2015 (अपराहन) को समाप्त होने के फलस्वरूप नियुक्ति आदेश के पैरा 4(1) के साथ पठित केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली-1965 के नियम-5, उप-नियम-1 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 09.01.2015 (अपराहन) से उनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं। तदनुसार उन्हें उसी तिथि अर्थात् 09.01.2015 (अपराहन) से के.रि.पु.बल की नफरी से निकाला जाता है।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 22 जनवरी 2015

सं. ओ.दो. 4009/2015-कार्मिक (चि.अ.)—राष्ट्रपति जी डॉ. शमा बी. आर., को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपए 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 16.01.2015 (पूर्वाहन) से, अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 28 जनवरी 2015

सं. ओ.दो. 2551/89—कार्मिक डीए-1—श्री अभय चन्द्र सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक, कोबरा सेक्टर, केरिपुबल, नई दिल्ली (इरला संख्या : 2807), जिनकी “कोरोनरी आर्टरी डिसिज” के कारण दिनांक 21.12.2014 को 1540 बजे ओरचिड अस्पताल, राँची में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है, को खेद सहित अधिसूचित किया जाता है। तदनुसार उन्हें दिनांक 21.12.2014 (अपराह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

सं. प्रशा. 1/1366-II/2014-15/239—प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल ने सहर्ष निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को दिनांक 01.01.2015 (पूर्वाह्न) या उनके कार्यग्रहण करने की दिनांक, जो भी बाद में हो, वेतन बैंड-III (रु. 15,600—39,100/-) प्लस ग्रेड वेतन रु. 5,400/- प्रतिमाह पर वरिष्ठ लेखा अधिकारी के उच्चतर प्रकार्यात्मक ग्रेड पर पदोन्नीत किया है :—

क्रम संख्या	नाम
1.	श्री तमाल कुमार मण्डल
2.	श्री विश्व रंजन राँय
3.	श्री रंजन कुमार दे
4.	श्री उत्पलेंदु मण्डल

(प्राधिकारी : प्रधान महालेखाकार का आदेश, दिनांक 17.12.2014)

मुकुट मुखर्जी
उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशा. 1/1038-26/2014-15/240—प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल ने सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखा अधिकारियों को दिनांक : 01.01.2015 (पूर्वाह्न) या उनके कार्यग्रहण करने की दिनांक, जो भी बाद में हो, वेतन बैंड-II (रु. 9,300—34,800/-) प्लस ग्रेड वेतन रु. 5,400/- प्रतिमाह पर लेखा अधिकारी के तौर पर पदोन्नीत किया है :—

क्रम संख्या	नाम
1.	श्री सुब्रत सिन्हा
2.	श्री कनाई लाल हालदार

(प्राधिकारी : प्रधान महालेखाकार का आदेश, दिनांक 17.12.2014)

मुकुट मुखर्जी
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.लेप.) का कार्यालय, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना

हैदराबाद-500004, दिनांक 29 जनवरी 2015

सं. प्रशा.-I/पदो./5-4/एफ.-60/2014-2015/89—प्रधान महालेखाकार ने सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) को रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन सहित रु. 9,300—34,800/- के वेतन बैंड-2 के स्थानापन्न लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है, जो कि उनके नाम के आगे दी हुई तिथि से प्रभावी होगा :—

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	का. आदेश सं./दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री अरुण लाल चौधरी	128/13.01.2015	14.01.2015 (FN)

उपरोक्त प्रोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हो, के प्रति पक्षपात से रहित है तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत के सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण इत्यादि में लंबित रिट याचिकाओं, यदि कोई हो, के परिणाम के अधीन है।

कर्मचारी वेतन के पुनः निर्धारण के पात्र नहीं हैं क्योंकि एसीपी के तहत उन्हें पहले ही 5,400/- के ग्रेड पे के साथ रु. 9,300—34,800/- के पे बैंड-2 में वित्तीय उन्नयन दिया जा चुका है।

अनीता बालाकृष्णा
व. उप महालेखाकार (प्रशा.)

सं. प्रशा.-I/पदो./5-4/एफ.-61/2014-2015/90—प्रधान महालेखाकार ने सहर्ष निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) को रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन सहित रु. 15,600—39,100/- के वेतन बैंड-3 के स्थानापन्न व. लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है, जो कि उनके नाम के आगे दी हुई तिथि से प्रभावी होगा :—

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु./सु.)	का. आदेश सं./दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	मधु सुदना रेड्डी जी	119/30.12.2014	31.12.2014 (FN)

उपरोक्त प्रोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हो, के प्रति पक्षपात से रहित है तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत के सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण इत्यादि में लंबित रिट याचिकाओं, यदि कोई हो, के परिणाम के अधीन है।

कर्मचारी को समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के दिनांक 26.09.1981 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ 1/80-स्था. (पी.1) और दिनांक 08.02.1983 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ-13/26/82-स्था.(पी.1) के तहत अपने प्रोन्नति के दिन से एक महीने के अन्दर वेतन निर्धारण के विकल्प दें।

अनीता बालाकृष्णा
व. उप महालेखाकार (प्रशा.)

सं. प्रशा.-I/पदो./5-4/एफ.-61/2014-2015/91—प्रधान महालेखाकार ने सहर्ष निम्नलिखित व. लेखापरीक्षा अधिकारी को 5,400/- के ग्रेड वेतन सहित रु. 9,300—34,800/- के वेतन बैंड-2 लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) के रूप में पदावनति किया है, जो कि उनके नाम के आगे दी हुई तिथि से प्रभावी होगा :—

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु./सु.)	का. आदेश सं./दिनांक	पदावनति की तिथि
1.	मल्लिकार्जुन राव के	47/12.12.2014	12.12.2014 (AN)

अनीता बालाकृष्णा
व. उप महालेखाकार (प्रशा.)

वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग)
पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 जनवरी 2015

सं. ए-19011/69/90/प्रशा.-06/प्रशा.-II—महामहिम राष्ट्रपति, भारतीय निरीक्षण सेवा (समूह-क) के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी श्री आर. करुपैया को सेवा के उच्च प्रशासनिक ग्रेड में अपर महानिदेशक (गु. आ.) के पद पर रु. 67,000—69,000/- के वेतनमान में दिनांक 26.12.2014 (अप.) से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. सी. दास
उप निदेशक (प्रशासन)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 23 जनवरी 2015

सं. 452/एसपी./ए-32013/3-डीडीजी(रसा)/2013-19बी—राष्ट्रपति जी विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निदेशक (रसायन) के ग्रेड में निम्नलिखित अधिकारियों को इसी विभाग में पदोन्नति पर उपमहानिदेशक (रसायन) के पद पर रु. 10,000/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-4 :

रु. 37,400—67,000/— में नियमानुसार वेतन पर प्रत्येक के सामने यथा उल्लिखित तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	उपमहानिदेशक (रसायन) के पद पर पदोन्नति की तिथि
1.	श्री एफ. खरसिंग	31.10.2014 (पूर्वाह्न)
2.	श्री एस. एस. किरण	24.11.2014 (पूर्वाह्न)
3.	डॉ. जी. सी. श्रीवास्तव	31.10.2014 (पूर्वाह्न)
4.	श्री आर. एस. आल्टे	03.11.2014 (पूर्वाह्न)
5.	डॉ. एस. के. शर्मा	01.12.2014 (पूर्वाह्न)
6.	श्री एन. के. तिवारी	10.11.2014 (पूर्वाह्न)

एच. एम. मिश्रा
उप निदेशक (कार्मिक और प्रशासन)
कृते महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 28 जनवरी 2015

सं. पीडी/7(19)/2014/भर्ती-IV/(एसओ/एफ)/15/981—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड 'ई' पे बैंड पीबी-3 रु. 15,600—39,100/— + ग्रेड पे रु. 7,600/— को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'एफ' के पद पर पे बैंड पीबी-4 रु. 37,400—67,000/— + ग्रेड पे रु. 8,700/— के वेतनमान में उनके नाम के आगे उल्लेखित कालम संख्या 3 में दर्शाई गई तिथि के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदोन्नति तिथि
(1)	(2)	(3)
1.	श्री अरुण बिश्वास	01/07/2014
2.	श्री अश्विनी कुमार पोसवाल	01/07/2014
3.	श्री विवेक भारद्वाज	01/07/2014
4.	श्री अरुण कुमार गौयल	01/07/2014
5.	श्री मनोज कुमार यादव	01/07/2014
6.	श्रीमती नियोती शरद शेनोय्	01/07/2014
7.	श्री अमित शर्मा	01/07/2014
8.	श्री एस. जाना	01/07/2014
9.	श्री वीर विनोद सोपान	01/07/2014
10.	श्री अमित राव	01/07/2014
11.	श्री अमित सूर	01/07/2014
12.	श्री सुप्रतिम मजुमदार	01/07/2014
13.	श्री महाराज क्रष्ण कौल	01/07/2014
14.	श्री वीर कृष्ण धर	01/07/2014
15.	श्रीमती आभा नवीन कुमार	12/08/2014

(1)	(2)	(3)
16.	श्री सिरियक कुरियन	01/07/2014
17.	श्री आदित्य वासुदेव मज़ली	01/07/2014
18.	श्रीमती पूनम पहारी	01/07/2014
19.	श्री एस. माधवन	01/07/2014
20.	श्री जगदीश यादव	01/07/2014
21.	श्री अरुण कुमार सक्सेना	01/07/2014
22.	डॉ संदीप निगम	01/07/2014
23.	श्री बाठे भगवान एन.	01/07/2014
24.	श्री कुमार वैभव	01/07/2014
25.	श्री विनोद कुमार बोप्पान्ना	01/07/2014
26.	श्री तल्लप्रगडा सूर्यनारायण मूर्ध्ति	01/07/2014
27.	श्री आनन्द कुमार शर्मा	01/07/2014
28.	श्री अनिल कुमार बिष्ट	01/07/2014
29.	श्री अशोक कुमार	01/07/2014
30.	श्रीमती कांचना गोपाल मेनन	01/07/2014
31.	श्री राजेन्द्रन एस.	01/07/2014
32.	श्री सुमित कुमार सिन्हा	01/07/2014
33.	डॉ ऋषि वर्मा	01/07/2014
34.	श्रीमती साधना अरुण मंडलीक	01/07/2014
35.	श्रीमती स्वाती अमित हिरेमठ	01/07/2014
36.	श्री गिरीशन व्ही. आर.	01/07/2014
37.	श्री कमलेश चन्द्र पाण्डेय	01/07/2014
38.	श्री सम्राट कर	01/07/2014
39.	श्री सुदेश शांताराम पंडित	01/07/2014
40.	श्री बीभूती भूषण मिश्रा	01/07/2014
41.	श्री सचिन नंदकुमार हजारे	01/07/2014
42.	डॉ अशोक कुमार साहु	01/07/2014
43.	डॉ महादेव राचप्पा गोनल	01/07/2014
44.	डॉ शिवानन्द चौरसिया	01/07/2014
45.	डॉ आनंद श्रीनिवासन	01/07/2014
46.	श्री प्रदीप भार्गव	01/07/2014
47.	श्री ब्लांघाट नारायणन दिलीप	01/07/2014
48.	डॉ अखय कुमार पात्रा	01/07/2014

(1)	(2)	(3)
49.	श्री अविनाश कुमार	01/07/2014
50.	डॉ अरगुडिगे चन्द्रशेखरा	01/07/2014
51.	श्री आचार्य राजेश वेणिमाधव	01/07/2014
52.	डॉ(श्रीमती) दृष्टि सतपती	01/07/2014
53.	श्री नागराज आलंगी	01/07/2014
54.	श्री सोमेश्वर राव चिट्टीबोम्मा	01/07/2014
55.	डॉ रजनी कान्त चिट्टेला	01/07/2014
56.	डॉ(श्रीमती) शीतल उप्पल	01/07/2014
57.	श्री अभय चतुर्वेदी	01/07/2014
58.	श्री करिमुल्ला शेख	01/07/2014
59.	श्री श्रीकांत शेषगिरिराव कातरकी	01/07/2014
60.	श्री विनय कुमार	01/07/2014
61.	डॉ(श्रीमती) संतोषी रामकृष्ण प्रभु	01/07/2014
62.	डॉ(श्रीमती) सरिता विजय केदारे	01/07/2014
63.	डॉ(श्रीमती) सुरीता सी. कंथारिया	01/07/2014
64.	श्री पालूरु मल्लिखार्जुन राव	01/07/2014
65.	श्री मनोज कुमार यादव	01/07/2014
66.	श्री रा. नागराज	01/07/2014
67.	श्री वी. मुरुगन	01/07/2014
68.	डॉ अभिजित भट्टाचार्य	01/07/2014
69.	श्री प्रकाश चन्द्र राउत	01/07/2014
70.	श्री सुरेश चंद शर्मा	01/07/2014
71.	श्री ब्रजेश कुमार सिन्हा	01/07/2014
72.	श्री ब्रजेश कुमार झा	01/07/2014
73.	श्री अयाज़ उल हक उस्मानी	15/07/2014
74.	श्री इलानगोवन ए.	01/07/2014
75.	श्री गौतमापुथन बी.	01/07/2014
76.	श्री मनिकनंदन एन.	01/07/2014
77.	श्री रत्नेश कुमार	01/07/2014
78.	श्री भीष्म प्रसाद	01/07/2014
79.	श्री प्रकाश कश्यप	07/07/2014
80.	श्री राजीव थरानी	01/07/2014

(1)	(2)	(3)
81.	श्री उल्हास रामचन्द्र ठाकुरद्वारकर	01/07/2014
82.	श्री दीपंकर साधु	01/07/2014
83.	डॉ जगन्नाथ विश्वनाथ सोनवणे	01/07/2014
84.	श्री जयकरण	09/07/2014
85.	श्री कपूर हरेश नौबतराय	01/07/2014
86.	श्री मुकेश कुमार	01/07/2014
87.	श्री रोहित आमेटा	01/07/2014
88.	श्री सुरेश कुमार	01/07/2014
89.	श्री गणेश वासुदेव कामत	01/07/2014
90.	श्री वेणुगोपाल एम. आर.	01/07/2014
91.	डॉ स्वरूप कांति रक्षित	01/07/2014
92.	श्री कमलेश मधुकर पंडीत	01/07/2014
93.	श्री अजय कुमार मिश्रा	01/07/2014
94.	श्री विजयकुमार प्रहलादभाई पटेल	01/07/2014
95.	श्री पेंटपाटि सीता रामांजनेयुलु	01/07/2014
96.	डॉ सुमित कुमार	01/07/2014
97.	डॉ(श्रीमती) हिमांशी नारंग मिश्रा	01/07/2014
98.	श्री नरिन्द्र कुमार शर्मा	01/07/2014
99.	डॉ धनदीप दत्त	01/07/2014
100.	श्री मनोज महापात्र	01/07/2014
101.	श्री अजित कांजिराक्काडू जॉन	01/07/2014
102.	श्री आशीष ठाकुर	01/07/2014
103.	श्री कल्याण चक्रवर्ती मादला	01/07/2014
104.	श्री संजय कुमार जैन	01/07/2014
105.	श्री तडित कुमार चौधुरी	01/07/2014
106.	श्रीमती याचिका वर्मा	01/07/2014
107.	श्री रामा सुब्बु आनंद मुरुगन	01/07/2014
108.	श्री अडवण्णे शिवप्रकाश	01/07/2014
109.	कुमारी राणि बालन मेनोन	01/07/2014
110.	डॉ पी. आनंद	01/07/2014
111.	श्री बिटला शंकरय्या	01/07/2014
112.	श्री संतोष श्रीधर यादवाड	01/07/2014

(1)	(2)	(3)
113.	डॉ मुनीश कुमार	01/07/2014
114.	डॉ नागेश नागभूषण भट	01/07/2014
115.	श्रीमती छन्दा चन्द्र	01/07/2014
116.	श्री अनेक कुमार	01/07/2014
117.	श्री दुबे प्रकाश कुमार	01/07/2014
118.	श्री राजीव नंदन	01/07/2014
119.	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	01/07/2014
120.	श्री विमल कनैयालाल कोटक	01/07/2014
121.	डॉ काजल धोले	01/07/2014
122.	श्री अमित कुमार पवार	01/07/2014
123.	श्री जाधव प्रदीप आप्पाजी	01/07/2014
124.	श्री मिथिलेश कुमार	01/07/2014
125.	श्री तंगमणि इनबनाथन	01/07/2014
126.	श्री अमित भटनागर	01/07/2014
127.	श्रीमती नारायणि कृष्णन	01/07/2014
128.	श्रीमती सत्याप्रिया आर श्रीजित	01/07/2014
129.	श्री नरेन्द्र कुमार गोयल	01/07/2014
130.	श्री आदित्य कुमार पाल	01/07/2014
131.	श्रीमती टेसी जॉर्ज	01/07/2014
132.	डॉ अमित कुमार	01/07/2014
133.	डॉ कुठे रामाचारी सुब्रमनियन चंद्रकुमार	01/07/2014
134.	श्री संधानशिवे देवेंद्र शंकर	01/07/2014
135.	डॉ मनमीत कौर	01/07/2014
136.	श्री अशोक कुमार जोत्शी	01/07/2014
137.	श्री देवेन्द्र कुमार	01/07/2014
138.	श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाल	01/07/2014
139.	श्री संजय कुमार	01/07/2014
140.	श्री एलम सिंह बागड़ी	01/07/2014
141.	श्री गोरख रावसाहेब उरसल	01/07/2014
142.	श्री निखिल दिगंबर हड़प	01/07/2014
143.	श्री शुभंकर मान्ना	01/07/2014
144.	श्री रमेश पतिवाड़ा	01/07/2014

(1)	(2)	(3)
145	श्री संजय सिंह	01/07/2014
146	श्री निलय ज्योती जासु	01/07/2014
147	श्री सुरेश बाबु सी एम	01/07/2014

एम. वी. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/7(19)/2014/भर्ती-IV/(एसओ/एफ)/15/981—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के डॉ. श्रीजीत कनीयानकांडी, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'ई' पे बैंड पीबी-3 ₹ 15,600—39,100/- + ग्रेड पे ₹ 7,600/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'एफ' के पद पर पे बैंड पीबी-4 ₹ 37,400—67,000/- + ग्रेड पे ₹ 8,700/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में 01 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

एम. वी. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग
भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 28 जनवरी 2015

सं. भापाबो/भर्ती/1(10)-कोटा/2015/490—भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, श्री मनोज कुमार श्रृंगी, जनसंपर्क एवं कल्याण सहायक (पीबी-2 रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-), भारी पानी संयंत्र, मणुगुरु को दिनांक 20.12.2014 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में भारी पानी संयंत्र, कोटा में श्रम एवं कल्याण अधिकारी पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर-208002, दिनांक 28 जनवरी 2015

सं. 560(3)/उ.ख./853—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाये जाने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एक महीने की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कम्पनी विघटित कर दी जायेगी :—

Srl No.	Name Of The Company	CIN No.	SRN No.
1	डी0के0बी0 पॉवर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U40300UR2012PTC000328	C32529216
2.	वे0एल0 एनवॉयरमेन्टल कन्जरवेटिव एनर्जी जेनरेटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U31900UR2007PTC032496	C32795676
3	एडवयता आनन्दा योगा एजुकेशन फाउन्डेशन	U74120UR2012NPL000305	C33834862
4.	टाइगर टाइगर होम प्राइवेट लिमिटेड	U74900UR2008PTC032729	C35085877
5.	अंजनेय इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	U70102UR2010PTC033223	C38574851
6.	शिवनमन रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101UR2007PTC032512	C38525994
7	इको सिक्वूएस्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74900UR2009PTC032754	C37320694
8	भगवान इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UR2012PTC000304	C38062147

9	इनफोटेक इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U72210UR1990PTC011831	C29040680
10	स्टारकिंग मैनेजमेन्ट एंड जॉब ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74120UR2009PTC033000	C33977919
11	मनडोर स्टोर्स कशर्स प्राइवेट लिमिटेड	U14200UR2009PTC032838	C33698614
12	जवलपा इस्टेट्स डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UR2006PTC031855	C36987741

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार एवं शासकीय समापक
उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 29 जनवरी 2015

सं. 560(5)/6837—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्रम सं.	कंपनी का नाम	सिन नम्बर
1	सन क्रेडिट सेल्युशन प्राइवेट लिमिटेड	U65192UP2004PTC028313
2	रस्क ट्रेडिंग एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1965PTC003090
3	स्पुत्निक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1975PTC004055
4	मेनर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1976PTC004295
5	जौनपुर सेविंग्स एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1977PTC004386
6	प्रथिवी मोटर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1983PTC005928
7	मिलन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1983PTC005945
8	लोक प्रिया लीजिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1984PTC006615
9	राशी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1988PTC010117
10	सिगमा हाउसिंग फाइनेंस एण्ड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1993PLC015200
11	पुरैना हाउसिंग फाइनेंस एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1993PTC015231
12	बुद्धा फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1993PTC015508
13	पी जी फाइनेंस एण्ड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1994PTC016963
14	तिजारा इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1994PLC016995
15	रुनजुन मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1998PTC023194
16	जगदीश क्रिहायर फिन लिमिटेड	U65910UP1998PLC023313
17	रेनूसंत फाइनेंसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP2004PTC029194
18	रियर लीजिंग एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1993PLC015109
19	मार्केटिंग सर्विसेस एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1974PTC000816
20	दि जनरल फाइनेंस एण्ड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1937PLC000817
21	घरम फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1982PTC005521
22	राहत होल्डिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1984PTC006629
23	विजेता हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1985PTC007096
24	शीतू फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1987PTC008475
25	नाविक फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1987PTC009151
26	यमुना फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1988PTC009298

क्रम सं.	कंपनी का नाम	सिन नम्बर
27	गुरीश फाइनैस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1988PTC010176
28	लांबा हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1989PTC011100
29	पंच पुरी फाइनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1991PTC012967
30	स्रष्टी हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1991PTC013453
31	परखम मोटर एण्ड जनरल फाइनैस प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1991PTC013654
32	एस आर वी इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनैस प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1992PTC014092
33	एस आर ए वी फाइनैस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1993PTC015400
34	हाइवे फाइनैसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1995PTC018799
35	नव जीपन हाउसिंग एण्ड फाइनैस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1996PTC019557
36	द्यौदा फाइनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1996PTC019897
37	एन ई फाइनैस प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1992PTC014212
38	सुकृति फिनकाम प्राइवेट लिमिटेड	U65922UP2004PTC028641
39	उमापति फाइनैसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U65991UP1996PTC020405
40	कारुन ट्रेडिंग एण्ड फाइनैस प्राइवेट लिमिटेड	U65992UP1963PTC002942
41	सीतल फाइनैस एण्ड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड	U65992UP1965PTC003035
42	वेलफंड चिट फंड एण्ड फाइनैस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65992UP1973PTC003790
43	रुरकी चिट फंड एण्ड फाइनैस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65992UP1975PTC004184
44	शंकर (वीक) कुरी प्राइवेट लिमिटेड	U65992UP1992PTC014051
45	जरौली फाइनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65992UP1994PTC016330
46	बद्रीप्रसाद केदारनाथ म्यूचुअल बेनीफिट प्राइवेट लिमिटेड	U65992UP1994PLC016411
47	सैलसन चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड	U65992UP2004PTC028514
48	गुड लक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U65993UP1969PTC003231
49	पराशर इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनैस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65993UP1992PTC014633
50	एएमएस हेल्थकयर प्राइवेट लिमिटेड	U65993UP1995PTC017845
51	त्रिदीप इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U65999UP1965PTC003101
52	ओरिएण्टल सेविंग्स एण्ड फाइनैसिंग प्राइवेट लिमिटेड	U65999UP1973PTC003727
53	इंस्टा कोर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U65999UP2003PTC028122
54	आएसएम इंड्योरेंश कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U66010UP2004PTC029191
55	जयबालाजी इंड्योरेंश मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U66010UP2004PTC029278
56	सुष्ती इंड्योरेंश सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U66030UP2004PTC028716
57	स्विफ्ट फिनट्रेड इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U67110UP1996PTC020838
58	लूना आफेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP1986PTC008406
59	शोहरत नाथ फाइनैस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP1992PTC014494
60	पडरोन इन्वेस्टो प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP1993PTC015101
61	एटामैन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP1995PTC018749
62	ए एसएम कैपिटल एण्ड फाइनैस प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP1996PTC019409
63	एलडीएस फाइनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP1996PTC019654
64	समग्र लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP1996PTC019663

क्रम सं.	कंपनी का नाम	सिन नम्बर
65	मार्कमैन फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP1996PTC019667
66	कोनार्क शेयर्स एण्ड सिक्क्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP1996PTC019781
67	भूपेंद्र अवघ लीजिंग एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP1996PTC019803
68	डान इण्डिया सिक्क्योरिटीज लिमिटेड	U67120UP1996PLC020078
69	सिकान सिल्क प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP2004PTC028327
70	भागो सिक्क्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP2004PTC028517
71	आर के यादव सिक्क्योरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP2005PTC029519
72	दि इयोस इन्वेस्टमार्ट प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP2005PTC029869
73	जिया इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP2005PTC029964
74	एस सी इ 'पी' शेयर्स एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP2005PTC030588
75	चिरंजीलाल महेंद्र कुमार इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP1986PTC007624
76	अमर आनन्द सिक्क्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP1995PTC018408
77	श्री शेरे पंडित कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2004PTC028348
78	आकांक्षा मनी चेंजर्स प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2004PTC029216
79	विकल्प कैपिटल केयर प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2005PTC029532
80	आदित्य फिन एश्योरेज प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2005PTC029534
81	स्वयं सिद्ध इनवेस्ट सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U67200UP2004PTC028283

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बिलासपुर-495001, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

सं. कर-शा.स./560(5)/2014/1237—कम्पनी अधिनियम 1956 के धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि आज से निम्नलिखित कम्पनियों के नाम रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्रम सं.	CIN	कम्पनी का नाम
1.	U72200CT2003PTC015862	थर्ड मिलेनियम टेक्नोलोजी एण्ड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
2.	U72300CT2013PTC000793	आहिल टेक्नोलोजी एण्ड कन्सल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
3.	U10101CT2007PTC020166	सिद्धि विनायक मार्निंग एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड
4.	U52330CT2009PTC021439	अविनाश डिसाईन एण्ड ड्राइंग्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	U45204CT2010PTC022188	जे पी केंडिया कन्सल्टेन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6.	U67120CT2008PTC020738	श्री बाबा भोलेनाथ सेकुरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
7.	U51101CT2001PTC014530	कृणाल डिस्ट्रीब्यूटर्स (रायपुर) प्राइवेट लिमिटेड

आर. के. साहू
कम्पनी रजिस्ट्रार एवं शासकीय समापक
छत्तीसगढ़

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi – 110 003, the 21st January 2015

No.O.II.3963/12-Pers-MOs—Consequent on expiry of one month's notice served upon Dr Prameela V.S., SMO(Dy Commandant) (IRLA-9852) of CH, CRPF, Bangalore on 09/01/2015(AN), her services stands terminated with effect from 09/01/2015(AN) under clause 4 (1) of offer of appointment read with sub rule(1) of Rule-5 of the CCS (Temporary Service) Rules 1965. Accordingly, name of above doctor stands struck off from the rolls of CRPF from the same date.

M C PANWAR
DIGP(Pers)

The 22nd January 2015

No. O.II-4009/2015-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Shama. B.R, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 16-01-2015(FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M C PANWAR
DIGP(Pers)

The 28th January 2015

No. O.II-2551/1989-PERS-DA-I—Regret to notify that Shri Abhay Chandra Singh, DIG, O/O CoBRA Sector, CRPF, New Delhi (IRLA : 2807), who was a case of “coronary artery disease”, expired on 21/12/2014 at 1540 hrs while under treatment at Orchid Hospital, Ranchi. Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from the same date i.e. 21/12/2014 (AN).

M C PANWAR
DIGP(Pers)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E), WEST BENGAL

Kolkata – 700 001, the 19th December 2014

No.Admn.I/1366-II/2014-2015/239— The Principal Accountant General (A&E), West Bengal is pleased to promote the following Accounts Officers to the higher functional Grade of Sr. Accounts Officer in the Pay Band 3 of Rs.15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 01.01.2015 (FN) or the date of their taking over charge, whichever is later.

Sl. No.	Name (S/Shri)
1.	Tamal Kumar Mandal
2.	Biswa Ranjan Roy
3.	Ranjan Kumar Dey
4.	Utpalendu Mondal

[Authority: Pr. A.G's Order dated 17.12.2014]

M. MUKHERJEE
Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn.I/1038-XXVI/2014-2015/240—The Principal Accountant General (A&E), West Bengal is pleased to promote the following Asstt. Accounts Officers to the cadre of Accounts Officer in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 5400/- with effect from 01.01.2015 (FN) or the date of their taking over charge, whichever is later.

Sl. No.	Name (S/Shri)
1.	Subrata Sinha
2.	Kanailal Halder

[Authority: Pr. A.G's Order dated 17.12.2014]

M. MUKHERJEE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (G&SSA)

ANDHRA PRADESH AND TELANGANA

Hyderabad – 500 004, the 29th January 2015

No. Admn.I/Prom./5-4/F.60/2014-2015/89—Principal Accountant General is pleased to promote the following Assistant Audit Officer (Civil) to officiate as Audit Officer (Civil) in the Pay Band-2 of Rs. 9300—34800 with Grade Pay Rs. 5400/- with effect from the date mentioned against his name: —

Sl No	Name of the Officer (Sri./Smt./Ms.)	Office Order No./Date	Date of assumption of charge
1.	Arun Lal Choudhary	128/13.01.2015	14.01.2015 FN

The above promotion is ordered without prejudice to the claims of his seniors, if any, and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

The above officer is not eligible for further fixation of pay as he was already allowed financial up-gradation under MACP Scheme, in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 5,400/-.

ANITHA BALAKRISHNA
Sr. Dy. Accountant General(Admn.)

No. Admn.I/Prom./5-4/F.61/2014-2015/90—Principal Accountant General is pleased to promote the following Audit Officer (Civil) to officiate as Sr. Audit Officer (Civil) in the Pay Band-3 of Rs. 15600—39100 with Grade Pay Rs. 5400/- with effect from the date mentioned against their name.

Sl No	Name of the Officer (Sri./Smt./Ms.)	Office Order No./Date	Date of assumption of charge
1.	Madhu Sudana Reddy G	119/ 30.12.2014	31.12.2014 FN

The above promotion is ordered without prejudice to the claims of his seniors, if any, and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

The above official should exercise option for fixation of pay within one month from the date of his taking over charge in terms of Government of India O.M.No. F/7/1/80-Estt. (P.I) dated 26.09.1981 and F.13/26/82-Estt. (P.I) dated 08.02.1983 as amended from time to time.

ANITHA BALAKRISHNA
Sr. Dy. Accountant General(Admn.)

No. Admn.I/Prom./5-4/F.62/2014-2015/91—Principal Accountant General has reduced following Sr. Audit Officer (Civil) to the lower post of Audit Officer to the Pay Band - 2 of Rs. 9300—34800 with Grade Pay Rs. 5400/- with effect from the date mentioned against his name.

Sl No	Name of the Officer (Sri./Smt./Ms.)	Office Order No./Date	Date of reduction of charge
1.	Mallikarjuna Rao K	47/ 12.12.2014	12.12.2014AN

ANITHA BALAKRISHNA
Sr. Dy. Accountant General(Admn.)

DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)
DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES AND DISPOSALS

New Delhi-110001, the 6th January 2015

No. A-19011/69/90/A-6/A-II—The President is pleased to appoint Sh. R. Karuppaih, an officer of Senior Administrative Grade of Indian Inspection Service (Group 'A') to the Higher Administrative Grade of the service as Additional Director General (Quality Assurance) in Scale of Pay of Rs. 67,000—79,000/- w.e.f. 26.12.2014 (A.N.)

R. C. DAS
Dy. Director (Admn.)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

KOLKATA - 700 016, the 23rd Janaury 2015

No. 452/SP /A-32013/3-DDG(Chem.)/2013-19B—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following officers in the grade of Director (Chemistry) on promotion to the post of Deputy Director General (Chemistry) in the same Department and on pay according to rules in the PB - 4: Rs. 37,400— 67,000 with the Grade Pay of Rs. 10,000 with effect from the date mentioned against each, on regular basis, until further orders:

Sl. No.	Name of the officers	Date of promotion to the post of Deputy Director General (Chemistry)
1.	Shri F. Kharshiing	31.10.2014 (FN)
2.	Shri S.S. Kiran	24.11.2014 (FN)
3.	Dr. G.C. Srivastav	31.10.2014 (FN)
4.	Shri R.S. Alte	03.11.2014 (FN)
5.	Dr. S.K. Sharma	01.12.2014 (FN)
6.	Shri N.K. Tiwari	10.11.2014 (FN)

H.M. MISHRA
Dy. Director (P&A)
for Director General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai – 85, the 28th January 2015

No. PD/7(19)/2014-R-IV/(SO/F)15/981—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'E' in pay band PB-3 Rs. 15600—39100 + grade pay Rs. 7600 of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'F' in the pay band PB-4 Rs. 37400—67000 + grade pay Rs. 8700 in the same Research Centre with effect from the forenoon of dates indicated under column 3 against each, in an officiating capacity, until further orders:-

Sl.No	Name of the officer	Date of promotion
(1)	(2)	(3)
1	Shri ARUP BISWAS	01/07/2014
2	Shri ASHWINI KUMAR POSWAL	01/07/2014
3	Shri VIVEK BHARDWAJ	01/07/2014
4	Shri ARUN KUMAR GOYAL	01/07/2014
5	Shri MANOJ KUMAR YADAV	01/07/2014
6	Smt NIYOTI SHARAD SHENOY	01/07/2014
7	Shri AMIT SHARMA	01/07/2014
8	Shri SHUBHANKAR JANA	01/07/2014
9	Shri VEER VINOD SOPAN	01/07/2014
10	Shri AMIT S. RAV	01/07/2014
11	Shri AMIT SUR	01/07/2014
12	Shri SUPRATIM MAJUMDAR	01/07/2014
13	Shri MAHARAJ KRISHEN KOUL	01/07/2014
14	Shri VIR KRISHEN DHAR	01/07/2014
15	Smt ABHA NAVEEN KUMAR	12/08/2014
16	Shri CYRIAC KURIAN	01/07/2014
17	Shri AADITYA VASUDEV MAJALEE	01/07/2014
18	Smt POONAM PAHARI	01/07/2014

(1)	(2)	(3)
19	Shri S MADHAVAN	01/07/2014
20	Shri JAGDISH YADAV	01/07/2014
21	Shri ARUN KUMAR SAXENA	01/07/2014
22	Dr SANDEEP NIGAM	01/07/2014
23	Shri BATHE BHAGWAN N	01/07/2014
24	Shri KUMAR VAIBHAV	01/07/2014
25	Shri VINOD KUMAR BOPPANNA	01/07/2014
26	Shri TALLAPRAGADA SURYANARAYANA MURTHY	01/07/2014
27	Shri ANAND KUMAR SHARMA	01/07/2014
28	Shri ANIL KUMAR BIST	01/07/2014
29	Shri ASHOK KUMAR	01/07/2014
30	Smt KANCHANA GOPAL MENON	01/07/2014
31	Shri RAJENDRAN S	01/07/2014
32	Shri SUMIT KUMAR SINHA	01/07/2014
33	Dr RISHI VERMA	01/07/2014
34	Smt SADHANA ARUN MANDLIK	01/07/2014
35	Smt SWATI AMIT HIEMATH	01/07/2014
36	Shri GIREESAN V R	01/07/2014
37	Shri KAMALESH CHANDRA PANDEY	01/07/2014
38	Shri SAMRAT KAR	01/07/2014
39	Shri SUDESH SHANTARAM PANDIT	01/07/2014
40	Shri BIBHUTI BHUSAN MISHRA	01/07/2014
41	Shri SACHIN NANDKUMAR HAJARE	01/07/2014
42	Dr ASHOK KUMAR SAHU	01/07/2014
43	Dr MAHADEV RACHAPPA GONAL	01/07/2014
44	Dr SHIVANAND CHAURASIA	01/07/2014
45	Dr ANAND SRINIVASAN	01/07/2014
46	Shri PRADEEP BHARGAVA	01/07/2014
47	Shri BLANGAT NARAYANAN DILEEP	01/07/2014
48	Dr AKHAYA KUMAR PATRA	01/07/2014
49	Shri AVINASH KUMAR	01/07/2014
50	Dr ARAGUDIGE CHANDRASHEKARA	01/07/2014
51	Shri ACHARYA RAJESH VENIMADHAV	01/07/2014
52	Dr(Smt) DRISHTY SATPATI	01/07/2014
53	Shri NAGARAJ ALANGI	01/07/2014
54	Shri SOMESWARA RAO CHITTIBOMMA	01/07/2014
55	Dr RAJANI KANT CHITTELA	01/07/2014
56	Dr(Smt) SHEETAL UPPAL	01/07/2014
57	Shri ABHAY CHATURVEDI	01/07/2014

(1)	(2)	(3)
58	Shri KARIMULLA SHAIK	01/07/2014
59	Shri SHRIKANT SHESHAGIRIRAO KATARKI	01/07/2014
60	Shri VINAY KUMAR	01/07/2014
61	Dr(Smt) SANTOSHI RAMKRISHNA PRABHU	01/07/2014
62	Dr(Smt) SARITA VIJAY KEDARE	01/07/2014
63	Dr(Smt) SURITA CHETAN KANTHARIA	01/07/2014
64	Shri PALURU MALLIKARJUNA RAO	01/07/2014
65	Shri MANOJ KUMAR YADAV	01/07/2014
66	Shri R. NAGARAJ	01/07/2014
67	Shri V. MURUGAN	01/07/2014
68	Dr ABHIJIT BHATTACHARYYA	01/07/2014
69	Shri PRAKASH CHANDRA ROUT	01/07/2014
70	Shri SURESH CHAND SHARMA	01/07/2014
71	Shri BRAJESH KUMAR SINHA	01/07/2014
72	Shri BRAJESH KUMAR JHA	01/07/2014
73	Shri AYZ UL HAQ USMANI	15/07/2014
74	Shri ELANGO VAN A.	01/07/2014
75	Shri GOWTHAMAPUTHAN B.	01/07/2014
76	Shri MONIKANDAN N.	01/07/2014
77	Shri RATNESH KUMAR	01/07/2014
78	Shri BHISHAM PRASAD	01/07/2014
79	Shri PRAKASH KASHYAP	07/07/2014
80	Shri RAJIV THARANI	01/07/2014
81	Shri ULHAS RAMCHANDRA THAKURDWARKAR	01/07/2014
82	Shri DIPANKAR SADHU	01/07/2014
83	Dr JAGANNATH VISHWANATH SONAWANE	01/07/2014
84	Shri JAIKARAN	09/07/2014
85	Shri KAPUR HARESH NAUBATRAI	01/07/2014
86	Shri MUKESH KUMAR	01/07/2014
87	Shri ROHIT AMETA	01/07/2014
88	Shri SURESH KUMAR	01/07/2014
89	Shri GANESH VASUDEV KAMATH	01/07/2014
90	Shri VENUGOPAL M R	01/07/2014
91	Dr SWARUP KANTI RAKSHIT	01/07/2014
92	Shri KAMLESH MADHUKAR PANDIT	01/07/2014
93	Shri AJAY KUMAR MISHRA	01/07/2014
94	Shri VIJAYKUMAR P. PATEL	01/07/2014
95	Dr PENTAPATI SITA RAMANJANEYULU	01/07/2014
96	Dr SUMIT KUMAR	01/07/2014

(1)	(2)	(3)
97	Dr(Smt) HIMANSHI NARANG MISHRA	01/07/2014
98	Shri NARINDER KUMAR SHARMA	01/07/2014
99	Dr DHANADEEP DUTTA	01/07/2014
100	Shri MANOJ MOHAPATRA	01/07/2014
101	Shri AJITH KANJIRAKKATTU JOHN	01/07/2014
102	Shri ASHISH THAKUR	01/07/2014
103	Shri KALYAN CHAKRAVARTHY MADALA	01/07/2014
104	Shri SANJAY KUMAR JAIN	01/07/2014
105	Shri TARIT KUMAR CHOWDHURI	01/07/2014
106	Smt YACHIKA VERMA	01/07/2014
107	Shri RAMASUBBU ANANDA MURUGAN	01/07/2014
108	Shri ADAVANNE SHIVAPRAKASH	01/07/2014
109	Kum RANI BALAN MENON	01/07/2014
110	Dr P. ANAND	01/07/2014
111	Shri BITLA SHANKARAIHAH	01/07/2014
112	Shri SANTOSH SHRIDHAR YADWAD	01/07/2014
113	Dr MUNISH KUMAR	01/07/2014
114	Dr NAGESH NAGABHUSHANA BHAT	01/07/2014
115	Smt CHHANDA CHANDRA	01/07/2014
116	Shri ANEK KUMAR	01/07/2014
117	Shri DUBEY PRAKASH KUMAR	01/07/2014
118	Shri RAJEEV NANDAN	01/07/2014
119	Shri RAMESH CHANDRA SHARMA	01/07/2014
120	Shri VIMAL KANAIYALAL KOTAK	01/07/2014
121	Dr KAJAL DHOLE	01/07/2014
122	Shri AMIT KUMAR PAWAR	01/07/2014
123	Shri JADHAV PRADEEP APPAJI	01/07/2014
124	Shri MITHILESH KUMAR	01/07/2014
125	Shri THANGAMANI INBANATHAN	01/07/2014
126	Shri AMIT BHATNAGAR	01/07/2014
127	Smt NARAYANI KRISHNAN	01/07/2014
128	Smt SATHYAPRIYA R SREEJITH	01/07/2014
129	Shri NARENDER KUMAR GOEL	01/07/2014
130	Shri ADITYA KUMAR PAL	01/07/2014
131	Smt TESSIE GEORGE	01/07/2014
132	Dr AMIT KUMAR	01/07/2014
133	Dr KUTTAY RAMACHARY SUBRAMANIAN CHANDRAKUMAR	01/07/2014
134	Shri SANDHANSHIVE DEVENDRA SHANKAR	01/07/2014
135	Dr MANMEET KAUR	01/07/2014

(1)	(2)	(3)
136	Shri ASHOK KUMAR JOTSHI	01/07/2014
137	Shri DEVENDRA KUMAR	01/07/2014
138	Shri DEVENDRA KUMAR AGARWAL	01/07/2014
139	Shri SANJAY KUMAR	01/07/2014
140	Shri ALAM SINGH BAGADI	01/07/2014
141	Shri GORAKH RAVSAHEB URSAL	01/07/2014
142	Shri NIKHIL DIGAMBER HADAP	01/07/2014
143	Shri SUBHANKAR MANNA	01/07/2014
144	Shri RAMESH PATIVADA	01/07/2014
145	Shri SANJAY SINGH	01/07/2014
146	Shri NILAY JYOTI JASU	01/07/2014
147	Shri SURESH BABU C M	01/07/2014

M.V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(19)/2014-R-IV/SO(F)/15/981—The President is pleased to appoint Dr Sreejith Kaniyankandy, Scientific Officer/Engineer Grade 'E' pay band PB-3 Rs. 15600—39100 + grade pay Rs. 7600 of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'F' in the pay band PB-4 Rs. 37400—67000 + grade pay Rs. 8700 in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2014, in an officiating capacity, until further orders.

M.V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

HEAVY WATER BOARD

Mumbai - 400 094, the 28th January 2015.

No. HWB/R/1(10)-Kota/2015/490— Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri Manoj Kumar Shringi, Public Relations and Welfare Assistant (Pay Band-2 Rs. 9300—34800 with Grade Pay Rs. 4200/-) Heavy Water Plant, Manuguru to officiate as Labour-cum-Welfare Officer in the Pay Band-2 Rs. 9300—34800 with Grade Pay Rs. 4800/- in Heavy Water Plant, Kota from the forenoon of 20.12.2014 until further orders.

K.S. Pillai
Admn. Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act 1956 and of following companies

Kanpur-208002, the 28th January 2015

No.LC/560(3)/UK/853—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of one months from the date the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

Sr No.	Name Of The Company	CIN No.	SRN No.
1	DKB POWER COMPANY PRIVATE LIMITED	U40300UR2012PTC000328	C32529216
2	K L ENVIRONMENTAL CONSERVATIVE ENERGY GENERATING COMPANY PRIVATE LIMITED	U31900UR2007PTC032496	C32795676
3	ADVAYTA ANANDA YOGA EDUCATION FOUNDATION	U74120UR2012NPL000305	C33834862
4	TIGER TIGER HOME PRIVATE LIMITED	U74900UR2008PTC032729	C35085877
5	ANJNAY INFRATECH PRIVATE LIMITED	U70102UR2010PTC033223	C38574851

Sr No.	Name Of The Company	CIN No.	SRN No.
6	SHIVNAMAN RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101UR2007PTC032512	C38525994
7	ECO SEQUEST PRIVATE LIMITED	U74900UR2009PTC032754	C37320694
8	BHAGWAN IMPEX PRIVATE LIMITED	U74120UR2012PTC000304	C38062147
9	INFOTECH ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	U72210UR1990PTC011831	C29040680
10	STARKING MANAGEMENT AND JOB TRAINING SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120UR2009PTC033000	C33977919
11	NANDAUR STONES CRUSHERS PRIVATE LIMITED	U14200UR2009PTC032838	C33698614
12	JWALPA ESTATES DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201UR2006PTC031855	C36987741

S.P.Kumar
Registrar of Companies-cum-Official Liquidator,
Attached to High Court, Nainital, Uttarakhand

In the matter of Companies Act 1956 and of following companies
Kanpur-208002, the 29th January 2015

No.LC/560(5)/6837—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off from the Registrar of Companies from the date of this publication, these companies shall stand dissolved: —

Sl. No.	COMPANY NAME	CIN NO.
1	SUN CREDIT SOLUTION PRIVATE LIMITED	U65192UP2004PTC028313
2	RUSK TRADING AND FINANCE PVT.LTD.	U65910UP1965PTC003090
3	SPUTNIK FINANCE PVT LTD	U65910UP1975PTC004055
4	MENAR FINANCE PVT LTD	U65910UP1976PTC004295
5	JAUNPUR SAVINGS AND FINANCE PVT LTD	U65910UP1977PTC004386
6	PRITHVI MOTOR FINANCE PRIVATE LIMITED	U65910UP1983PTC005928
7	MILAN FINANCE PRIVATE LIMITED	U65910UP1983PTC005945
8	LOKE PRIYA LEASING CO PVT LTD	U65910UP1984PTC006615
9	RASHI FINANCE PVT LTD.	U65910UP1988PTC010117
10	SIGMA HOUSING FINANCE AND LEASING LIMITED	U65910UP1993PLC015200
11	PURAINA HOUSING FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED	U65910UP1993PTC015231
12	BUDHA FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED	U65910UP1993PTC015508
13	PEE GEE FINANCIERS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U65910UP1994PTC016963
14	TIZARA INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED	U65910UP1994PLC016995
15	RUNJUN MOTOR AND GENERAL FINANCE PRIVATE LIMITED	U65910UP1998PTC023194
16	JAGDISH CREHIRE FIN LIMITED	U65910UP1998PLC023313
17	RENUSANT FINANACIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U65910UP2004PTC029194
18	REAR LEASING AND FINANCE LIMITED	U65910UP1993PLC015109
19	MAARKETING SERVICES AGENCIES PRIVATE LIMITED	U65921UP1974PTC000816
20	THE CENTRAL FINANCE AND HOUSING CO LIMITED	U65921UP1937PLC000817
21	DHARAM FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED	U65921UP1982PTC005521
22	RAHAT HOLDINGS (INDIA)PVT LTD	U65921UP1984PTC006629
23	VIJETA HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED	U65921UP1985PTC007096
24	SHITU FINANCIERS PRIVATE LIMITED	U65921UP1987PTC008475
25	NAVIK FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED	U65921UP1987PTC009151

Sl. No.	COMPANY NAME	CIN NO.
26	YAMUNA FINANCE CO PVT LTD	U65921UP1988PTC009298
27	GAURISH FINANCE COMPANY PVT. LTD	U65921UP1988PTC010176
28	LAMBA HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED	U65921UP1989PTC011100
29	PANCH PURI FINANCE AND INVESTMENT CO PVT LTD	U65921UP1991PTC012967
30	SRASTI HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED	U65921UP1991PTC013453
31	PARKHAM MOTOR AND GENERAL FINANCE PRIVATE LIMITED	U65921UP1991PTC013654
32	S.R.V. INVESTMENT AND FINANCE CO PRIVATE LIMITED	U65921UP1992PTC014092
33	R.S.A.V. FINANCE CO PRIVATE LIMITED	U65921UP1993PTC015400
34	HIGHWAY FINANCIAL SERVICES PVT.LTD.	U65921UP1995PTC018799
35	NAV JEEWAN HOUSING AND FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED	U65921UP1996PTC019557
36	GHARAUNDA FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65921UP1996PTC019897
37	N.E.FINANCERS PRIVATE LIMITED	U65921UP1992PTC014212
38	SUKRITI FINCON PRIVATE LIMITED	U65922UP2004PTC028641
39	UMAPATI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U65991UP1996PTC020405
40	QAROON TRADING AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U65992UP1963PTC002942
41	SITAL FINANCIERS AND CHIT FUND PRIVATE LIMITED	U65992UP1965PTC003035
42	WELFARE CHIT FUND AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U65992UP1973PTC003790
43	ROORKEE CHIT FUND AND FINANCE CO PVT LTD	U65992UP1975PTC004184
44	SHANKER(VK) KURI PRIVATE LIMITED	U65992UP1992PTC014051
45	JARAULI FINANCE AND INVESTMENT CO PRIVATE LIMITED	U65992UP1994PTC016330
46	BADRI PRASADKEDARNATH MUTUAL BENEFIT COMPANY LIMITED	U65992UP1994PLC016411
47	SALSONS CHIT FUND PRIVATE LIMITED	U65992UP2004PTC028514
48	GOOD LUCK INVESTMENTS PVT LTD	U65993UP1969PTC003231
49	PARASHAR INVESTMENT AND FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED	U65993UP1992PTC014633
50	AMS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U65993UP1995PTC017845
51	TRIDEEP INVESTMENT PRIVATE LIMITED	U65999UP1965PTC003101
52	ORIENTAL SAVINGSANDFINANCING PRIVATE LIMITED	U65999UP1973PTC003727
53	INSTA CORE MARKETING PRIVATE LIMITED	U65999UP2003PTC028122
54	ISM INSURANCE CONSULTANT PRIVATE LIMITED	U66010UP2004PTC029191
55	JAI BALA JI INSURANCE MARKETING PRIVATE LIMITED	U66010UP2004PTC029278
56	SUSHTI INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED	U66030UP2004PTC028716
57	SWIFT FINTRADE INDIA PRIVATE LIMITED	U67110UP1996PTC020838
58	LUNA OFFSET PRIVATE LIMITED	U67120UP1986PTC008406
59	SHOHRAT NATH FINANCE (INDIA)CO PRIVATE LIMITED	U67120UP1992PTC014494
60	PADRONE INVESTO PRIVATE LIMITED	U67120UP1993PTC015101
61	ATAMAN SECURITIES PVT.LTD.	U67120UP1995PTC018749
62	ASM CAPITAL AND FINANCE PRIVATE LIMITED.	U67120UP1996PTC019409
63	LDS FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120UP1996PTC019654
64	SAMAGRA LEASING PRIVATE LIMITED	U67120UP1996PTC019663
65	MARKMAN FINLEASE PRIVATE LIMITED	U67120UP1996PTC019667
66	KONARK SHARES AND SECURITY PRIVATE LIMITED	U67120UP1996PTC019781

Sl. No.	COMPANY NAME	CIN NO.
67	BHUPENDRA OUDH LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U67120UP1996PTC019803
68	DAWN INDIA SECURITIES LIMITED	U67120UP1996PLC020078
69	SICHUAN SILK PRIVATE LIMITED	U67120UP2004PTC028327
70	BHARGO SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120UP2004PTC028517
71	R K YADAV SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U67120UP2005PTC029519
72	THE EOS INVESTMART PRIVATE LIMITED	U67120UP2005PTC029869
73	JIA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U67120UP2005PTC029964
74	SCEP SHARES AND STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED	U67120UP2005PTC030588
75	CHIRANJI LAL MAHENDRA KUMAR INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	U67190UP1986PTC007624
76	AMAR ANAND SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67190UP1995PTC018408
77	SHRI SHARE PANDIT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U67190UP2004PTC028348
78	AAKAANKSHAA MONEY CHANGERS PRIVATE LIMITED	U67190UP2004PTC029216
79	VIKALP CAPITAL CARE PRIVATE LIMITED	U67190UP2005PTC029532
80	ADITYA FIN ASSURANCE PRIVATE LIMITED	U67190UP2005PTC029534
81	SWYAM SIDDHA INVESTSOLUTION PRIVATE LIMITED	U67200UP2004PTC028283

S P KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act 1956 and of following companies

Bilaspur-495001, the 2nd December 2014

No. ROC-cum-OL-C.G./u/s.560(5)/2014/1237—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following companies have this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved: —

Sl. No.	CIN	Company Name
1	U72200CT2003PTC015862	THIRD MILLENNIUM TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2	U72300CT2013PTC000793	AAHIL TECHNOLOGIES AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
3	U10101CT2007PTC020166	SIDHHI VINAYAK MINING & POWER PRIVATE LIMITED
4	U52330CT2009PTC021439	AVINASH DESIGNS & DRAWINGS PRIVATE LIMITED
5	U45204CT2010PTC022188	GP KEDIA CONSTRUCTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
6	U67120CT2008PTC020738	SHRI BABA BHOLENATH SECURITIES PRIVATE LIMITED
7	U51101CT2001PTC014530	KRUNAL DISTRIBUTORS (RAIPUR) PRIVATE LIMITED

R.K. SAHU
Registrar of Companies-cum-Official Liquidator
Chhattisgarh

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in